



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 2—फरवरी 8, 2008 (माघ 13, 1929)

No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 2—FEBRUARY 8, 2008 (MAGHA 13, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

## [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

दिनांक 3 दिसम्बर 2007

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 नवम्बर 2007

सं. पीएफ. 767-आर (3)/ए एन-1/जी एन-6001/2007--श्री यू. के. मित्रा ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली से प्रतिनियुक्ति से वापस आने पर इस सचिवालय में 12,750-375-16,500 रु. के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (लार्डिस) ग्रेड-I के रूप में 22 नवम्बर, 2007 के पूर्वान्त से अपना कार्यभार पुनः ग्रहण कर लिया है।

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं. पीएफ. 23-आर (3)/ए एन-1/जी एन-6010/2007--अध्यक्ष महोदय, दिनांक 18 मई, 2007 की अधिसूचना सं. जीएन-5894 के क्रम में, श्री आर. कोदंडरमण, निदेशक, की नागालैंड सरकार के संसदीय कार्य विभाग के सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति की अवधि 1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च, 2008 तक और तीन माह की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सहर्ष बढ़ाते हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 30 नवम्बर 2007

दिनांक 7 दिसम्बर 2007

सं. पीएफ. 120-आर (3)/जी एन-6007/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 10,000-15,200 रु. के वेतनमान में कार्यरत अवर सचिव, श्री हरि मंगल पाण्डेय को 12,000-375-16,500 रु. के वेतनमान में उप सचिव ग्रेड-II के ग्रेड में 30 नवम्बर, 2007 से, अगले आदेशों तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं. पीएफ. 1305-आर (3)/जी एन-6011/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 12,750-16,500 रु. के वेतनमान में कार्यरत संयुक्त निदेशक (अनुवाद) ग्रेड-I, श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव को 15,100-400-18,300 रु. के वेतनमान में निदेशक (अनुवाद) के ग्रेड में 7 दिसम्बर, 2007 से, अगले आदेशों तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 26 दिसम्बर 2007

सं. पीएफ. 154-आर (3)/जी एन-6014/ए एन-1/2007--  
डॉ. सत्यप्रकाश ने ऋण वसूली अधिकरण-1, दिल्ली से प्रतिनियुक्ति से  
वापस आने पर इस सचिवालय में 10,000-325-15,200 रु. के वेतनमान  
में अवर सचिव के रूप में 14 दिसम्बर, 2007 के पूर्वाह्न से अपना कार्यभार  
पुनः ग्रहण कर लिया है।

अभिजीत कुमार, निदेशक

योजना आयोग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 नवम्बर 2007

सं. ए.32014/1/2006-प्रशा.-III--राष्ट्रपति जी, योजना आयोग की  
दिनांक 25.07.2007 की समसंख्यक अधिसूचनाओं के अनुक्रम में और  
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.12.2007 के का.ज्ञा. सं.  
5.6/2007-सीएस-II के अनुसरण में, सीएसएसएस काडर के निम्नलिखित  
निजी सचिवों की योजना आयोग में प्रधान निजी सचिव के रूप में  
रु. 10,000-325-15,200/-वेतनमान में तदर्थ पदोन्नति की अवधि  
30.06.2008 तक या पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा  
अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं:-

1. श्री आर. एन. शर्मा
2. श्री आर. के. खुराना
3. श्री राजेश्वर मुखर्जी
4. श्री श्याम लाल
5. श्रीमति मीना टंडन
6. श्री ए. के. चक्रवर्ती
7. श्री वी. सिवाकुमारन
8. संतोष ऐलावादी
9. श्रीमति मुधा राजगोपालन
10. श्री अशोक कुमार शारदा
11. श्री इकबाल सिंह
12. श्री मुरली धर

2. प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है  
और उनको इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने या सीएसएसएस के  
ग्रेड में अभिनामित वारिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

अनिल मल्होत्रा, उप सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 जनवरी 2008

सं. ए. 43014/3/2007-प्रशा.-II--आर्थिक मामले विभाग (आईईएस  
अनुभाग) के दिनांक 16 नवम्बर 2007 (पी-4/2007), के आदेश

सं.13016/4/2007-आईईएस के तहत, श्री एस. अरुणदास्वामी, अनुसंधान  
अधिकारी (आईईएस की ग्रेड-1V) की कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन  
(पीईओ), चेन्नई के क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग  
में उप निदेशक के पद पर स्थानांतरण होने के परिणामस्वरूप, वह दिनांक  
10 जनवरी 2008 (अपराह्न) से परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (योजना  
आयोग) में ड्यूटी से कार्य मुक्त हो जाएंगे।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 जनवरी 2008

सं. ए. 12025/16/2007-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, योजना आयोग के  
उपसलाहकार, श्री आई. ए. खान को संघ लोक सेवा आयोग के सिफारिश  
पर योजना आयोग में 14,300-400-18,300 रु. के वेतनमान में संयुक्त  
सलाहकार (औद्योगिक अर्थशास्त्र/प्रबंधन) के पद पर प्रोन्नति के आधार  
पर दिनांक 01.01.2008 से या अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 15 जनवरी 2008

सं. ए. 12025/16/2006-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, योजना आयोग के  
उपसलाहकार, श्री आर. के. कौल को संघ लोक सेवा आयोग के सिफारिश  
पर योजना आयोग में 14,300-400-18,300 रु. के वेतनमान में संयुक्त  
सलाहकार (उद्योग एवं अवसंरचना आयोजना) के पद पर प्रोन्नति के  
आधार पर दिनांक 09.01.2008 से या अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

सं. ए. 12025/27/2002-प्रशासन-I--13.1.2008 को केन्द्रीय  
प्रतिनियुक्ति की अवधि की समाप्ति के पश्चात् योजना आयोग में निदेशक  
(वन) के तौर पर कार्यरत डॉ. एस. के. खंडूरी, आई. एफ. एस.  
(केरल:1984) को 18 दिनों का अर्जित अवकाश तारीख 14.1.2008 से  
31.1.2008 तक प्रदान किया जाता है। उक्त अर्जित अवकाश की समाप्ति  
के पश्चात् डॉ. खंडूरी को अपने मूल संवर्ग अर्थात् केरल सरकार को रिपोर्ट  
करना होगा।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 14 जनवरी 2008

सं. 181/3/2007(समूह-ख)-सक्षम प्राधिकारी, एतद्वारा भारत निर्वाचन  
आयोग सचिवालय में कार्यरत श्री राकेश कुमार (अ.जा.), सहायक, जो  
स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्य कर  
रहे हैं, 01.01.2008 से प्रभावी और अगले आदेशों तक नियमित आधार पर  
अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. पुनः उपर्युक्त नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में इस समय लम्बित सी. डब्ल्यू. पी. सं. 8225-43/2003 श्री तपन दत्ता तथा अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग के अन्तिम निर्णय के अधीन है।

स्टेन्डहोप युहलुंग, अवर सचिव

दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. ए-19/जी-ए/84--आयोग की दिनांक 18 नवम्बर, 2004 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में और मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 जनवरी, 2008 के संदर्भ संख्या 6/4/2008-ईओ(एस. एम. आई.) के अनुसरण में, डॉ. मृत्युन्जय सारंगी, आई.ए.एस. (टी एन : 77), को एतद्वारा विशेष कार्याधिकारी, भारत परिसीमन आयोग, के रूप में इस श्रेणी में उन्नत पद पर और भारत सरकार के अपर सचिव के वेतनमान में दिनांक 12 जनवरी, 2008 से परिसीमन आयोग की कार्यावधि की सह-विस्तारी (को-टर्मिनस) अवधि के लिए अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।

स्टेन्डहोप युहलुंग, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. 14011/1/2006-एसआर (पार्ट)--इस मंत्रालय की दिनांक 31.10.2007 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली के उप निदेशक, श्री के. एन. मंजुनाथ की क्षेत्रीय परिषद् सचिवालय, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली में उप सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति की अवधि को दिनांक 1 जनवरी, 2008 से 3 माह की अवधि के लिए या नए पदधारी द्वारा पद का कार्यभार ग्रहण किए जाने तक, इनमें जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

सुमिता मुखर्जी, निदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. I-18011/4/2007-आईपीएस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम-3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री असरा गर्ग, आईपीएस (तमिलनाडु : 2004) को दिनांक 6 सितम्बर, 2006 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं।

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी

नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी 2008

सं. 20/जी/2945-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, श्री देविन्दर कुमार, केन्द्रीय सचिवालय सेवा को गृह मंत्रालय में उप सचिव के रूप में पूर्णतया तदर्थ आधार पर दिनांक 15 जनवरी, 2008 के पूर्वान्त से नियुक्त करते हैं।

2. तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:--

(i) तदर्थ पदोन्नति अनिश्चितकाल तक ग्रेड में निरंतर बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा चयन ग्रेड में वरिष्ठता के दावे का अधिकार प्रदान नहीं करती।

(ii) तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

ओ. पी. शर्मा, अवर सचिव

सं. 20/जी/2944-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, श्रीमती श्यामला मोहन, केन्द्रीय सचिवालय सेवा को गृह मंत्रालय में उप सचिव के रूप में पूर्णतया तदर्थ आधार पर दिनांक 14 जनवरी, 2008 के पूर्वान्त से नियुक्त करते हैं।

2. तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:--

(i) तदर्थ पदोन्नति अनिश्चितकाल तक ग्रेड में निरंतर बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा चयन ग्रेड में वरिष्ठता के दावे का अधिकार प्रदान नहीं करती।

(ii) तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

ओ. पी. शर्मा, अवर सचिव

(राजभाषा विभाग)

केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 जनवरी 2008

सं. ए-32014/1/2007केहिप्रसं/198--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर सचिव (राजभाषा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय निम्नलिखित हिंदी प्राध्यापकों को केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में सहायक निदेशक (भाषा) के पद पर पदोन्नति पर रु. 7,500-250-12,000 के वेतनमान में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से सहर्ष नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री बंकट लाल शर्मा	03.12.2007
2.	श्रीमती राधिका देवी डी	07.01.2008
3.	श्री एम. पी. दामोदरन	01.01.2008

बी. सी. मंडल, निदेशक

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली-110067, दिनांक 6 दिसम्बर 2007

सं. 13016/02/2000-प्रशि.-I--राष्ट्रपति, श्रीमती मीरा नारायणन, अवर सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन

संस्थान, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति के आधार पर उप निदेशक (प्रबंधन सेवाएं) के रूप में नियुक्ति को 1.1.2008 से 31.12.2008 तक एक वर्ष की अवधि के लिए या उनके स्थान पर पदाधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें जो भी पहले हो, जारी रखते हैं।

2. यह इस विभाग की दिनांक 23.4.2007 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में जारी किया जाता है।

मनीषा भटनागर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 2008

सं. 20/जी/1332-प्रशा.(जी)--राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश वित्तिय सेवा के अधिकारी श्री प्रमोद कुमार शर्मा को 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में 31 दिसम्बर, 2007 के पूर्वाह्न से को-टर्मिनस आधार पर अथवा जब तक वे मंत्री के अपर निजी सचिव के रूप में कार्य करना बंद नहीं करते अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कार्मिक, लोक शिक्षा तथा पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) के अपर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

सं. 12026/5/2004-प्रशा.(जी)--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के सहायक श्री चन्द्रश्याम सिंह, जो इस समय इस विभाग में प्रतिनियुक्ति आधार पर 6,500-200-10,500 रुपये के वेतनमान में सहायक सचिव (सीसीएससीएसबी) के पद पर कार्यरत हैं की प्रतिनियुक्ति की अवधि को 10.12.2007 से 9.12.2008 तक और एक वर्ष की अवधि हेतु अथवा अगले आदेशों तक बढ़ाते हैं।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 जनवरी 2008

सं. 4013/02/2007-अ. भा. सें.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा गुजरात राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थाई करते हैं:--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	बैच	स्थायीकरण की तारीख
1.	श्री ए. एम. मंकड	1994	07.03.2006
2.	श्री पी. के. रावल	1994	07.03.2006
3.	श्री एच. एस. पटेल	1994	06.04.2006

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग

कर्मचारी चयन आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी 2008

सं. ए-19014/2/2003-स्थापना.-I--राष्ट्रपति, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.08.2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/2/2006-सी एस-1 (डेस्क) के तहत केंद्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव ग्रेड) की वर्ष 2001 और 2002 के लिए ग्रेड-I चयन सूची में उनका नाम सम्मिलित किए जाने के परिणामस्वरूप वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में स्थानापन्न केंद्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित स्थायी अनुभाग अधिकारियों को स्थायी आधार पर केंद्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) के ग्रेड-I अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम और सीएसएल सं.	क.व.प्र.वि. के दिनांक 20.08.2007 के का. ज्ञा. के अनुसार ग्रेड-I में दी गई वार्षिकता	नियुक्ति की मानी गई तारीख
चयन सूची-2001			
1.	श्री सत प्रकाश फुलन-4014	22	1.7.2001
चयन सूची-2002			
1.	श्री ए. के. शर्मा 4101	23	1.7.2002
2.	श्री के. पी. हरिकुमार-4104	26	1.7.2002

2. ऊपर उल्लिखित अधिकारियों की सैद्धांतिक आधार पर अवर सचिव के रूप में अनुमोदित सेवा और साथ ही उनके वेतन निर्धारण के उद्देश्य से इस नियुक्ति को क्रमशः 1.7.2001 और 1.7.2002 से प्रभावी समझा जाएगा। ये अधिकारी एफ आर-22 में दिए गए उपबंधों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के लिए विकल्प देने के लिए भी हकदार होंगे। तथापि, यदि कोई अधिकारी जो अपनी चयन सूची वर्ष की 1 जुलाई से पूर्व तदर्थ अवर सचिव के रूप में पदोन्नत हुआ हो तथा उसने विकल्प का लाभ ले लिया है, तो वह पुनः विकल्प देने का पात्र नहीं होगा। वास्तविक लाभ केवल उसी तारीख से उपलब्ध होगा जिस तारीख से इन अधिकारियों को अवर सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है।

वी. के. अग्रवाल, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

कार्यालय : प्रोतोकोल उप प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 2008

सं. डी-III/460/सी एफ-31/2007--भारत की राष्ट्रपति ने श्री मोहन गोयनका की कोलकाता में पोलैंड गणराज्य के मानक कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री मोहन गोयनका के कौंसली क्षेत्राधिकार में पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार और सिक्किम राज्य होंगे जिसका कौंसली केंद्र कोलकाता में होगा।

डी. के. शर्मा, प्रोतोकोल उप-प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर 2007

सं. 111 (फा. सं. ए.-19012/19/2007-प्रशासन-1)--भारत के राष्ट्रपति, श्री डी. के. गुप्ता, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 1991) को दिनांक 14.11.2007 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

दिनांक 7 दिसम्बर 2007

सं. 116 (फा. सं. 50/15/2005-प्रशासन-1)--अवर सचिव ग्रेड-1 में नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा (के.स.से.) के अधिकारियों की वर्ष 2001 और वर्ष 2002 के लिए चयन सूची में उनके नामों को शामिल करने के परिणामस्वरूप भारत के राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीख से अथवा अगला आदेश होने तक, नियमित आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्रम	नाम और पदनाम	सी एस	चयन पदोन्नति की
सं.		एल सं.	सूची तारीख
(सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)			
1.	आलोक अग्रवाल, अवर सचिव	3776-ए	2001 01.07.2001
2.	विजय के. शर्मा, अवर सचिव	3999	2001 01.07.2001
3.	एम. के. चन्द्रहसन, अवर सचिव	4022	2001 01.07.2001
4.	आर. एस. दहिया, अवर सचिव	4026	2001 01.07.2001
5.	शशि भूषण कौशिक, अवर सचिव	4052	2001 01.07.2001
6.	गियासी राम, अवर सचिव*	4359	2001 01.07.2001

\* क्रम सं. 6 पर उल्लिखित अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

2. उपर्युक्त चयन सूची में शामिल किए गए अधिकारियों की नियमित आधार पर अवर सचिव ग्रेड में नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में सिविल याचिका सं. 3269/2003, सि.रि.पि.सं. 3912/2003 और स.रि.पि.या.सं. 13352/2005 के परिणाम के अधीन होगी।

3. अधिकारी अवर सचिव के पद में उनकी वास्तविक नियुक्तियों की तारीख से उनके वेतन को पुनःनिर्धारण के कारण बकाया के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त, ये अधिकारी वित्तीय नियम 22 के प्रावधानों में उपबंध के अनुसार उनके वेतन निर्धारण के लिए लाभ के विकल्प को प्रयोग करने के

लिए भी हकदार होंगे तथापि ऐसे अधिकारी जो उनके चयन वर्ष की प्रथम जुलाई से पूर्व तदर्थ रूप में अवर सचिव पदोन्नत किए गए और जिन्होंने खंडित विकल्प का लाभ उठाया था वे विकल्प के पुनःप्रयोग करने के पात्र नहीं होंगे।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

दिनांक 19 दिसम्बर 2007

सं. 120 (फा. सं. ए.-19012/20/2007-प्रशा.-1)--भारत के राष्ट्रपति, श्री के. बालामुरुगन, भारतीय राजस्व सेवा (सी.शु. एवं के.उ.शु.-1997) को दिनांक 14.12.2007 (अपराह्न) से चार वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में उप-सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. 121 (फा. सं. ए.-19011/28/2007-प्रशासन-1)--भारत के राष्ट्रपति, सुश्री सरोज बाला, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 1972) को दिनांक 20.12.2007 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

दिनांक 2 जनवरी 2008

सं. 01 (फा. सं. ए.-19011/05/2005-प्रशा.-1)--भारत के राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (केरल : 74) के अधिकारी श्री के. मोहनदास, अपर सचिव (राजस्व) को वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में वर्तमान पद पर इन-सी टू उन्नयन के आधार पर दिनांक 02.01.2008 (अपराह्न) से और अगले आदेश होने तक विशेष सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 2007

सं. 117 (फा. सं. ए.-19011/27/2007-प्रशासन-1)--भारत के राष्ट्रपति, सुश्री रशीदा हुसैन, (भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा : 78) को राजस्व विभाग के अधीन केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो में दिनांक 01.11.2007 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव (कोफेपोसा) के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. रामाकृष्णन, अवर सचिव

दिनांक 12 दिसम्बर 2007

सं. 118 (फा. सं. ए.-19011/1/2007-प्रशासन-1)--भारत सरकार, राजस्व विभाग में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य श्री आर. एन. उपाध्याय, भा.रा.से. (आयकर : 1971) की 21.11.2007 की मृत्यु को खेद के साथ अधिसूचित करती है।

वी. रामाकृष्णन, अवर सचिव

दिनांक 13 दिसम्बर 2007

शुद्धि-पत्र

सं. 119 (फा. सं. ए.-19011/27/2007-प्रशा.-I)---भारत के राष्ट्रपति, सुश्री रशीदा हुसैन, भा. रा. से. (सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क : 78) को दिनांक 29.11.2007 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग के अन्तर्गत संयुक्त सचिव (कोफेपोसा) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. दिनांक 10.12.2007 की पिछली अधिसूचना सं. 117 को रद्द समझा जाए।

वी. रामाकृष्णन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2008

सं. 1/2008/ई.एस. [फा. सं. 5/32/2006-ई.एस. (भाग-1)]---भारत के राष्ट्रपति, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी श्री पी. एस. बालिया को दिनांक 26.12.2007 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर नियुक्ति तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पर वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के भारत वित्तीय आसूचना एकक में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. जी. पी. वर्गीज, अवर सचिव

सं. 2/2008/ई.एस. [फा. सं. 5/32/2006-ई.एस. (भाग-1)]---भारत के राष्ट्रपति, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी श्री डी. एस. मिश्रा को दिनांक 20.12.2007 (अपराह्न) से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर नियुक्ति तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पर वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के भारत वित्तीय आसूचना एकक में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. जी. पी. वर्गीज, अवर सचिव

सं. 3/2008/ई.एस. [फा. सं. 5/32/2006-ई.एस. (भाग-1)]---भारत के राष्ट्रपति, लघु उद्योग मंत्रालय के सहायक निदेशक, डॉ. जी. श्रीरामप्पा को दिनांक 13.12.2007 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर नियुक्ति तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पर वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के भारत वित्तीय आसूचना एकक में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. जी. पी. वर्गीज, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) स्थापना

सं. 71/2007 (फा. सं. ए.-38012/30/2007-प्रशा.-II)---राष्ट्रपति, सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क (पी एवं ए), बंगलौर, श्री पी. धनन्जय की दिनांक 01.02.2008 (अपराह्न) से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की सूचना को स्वीकार करते हैं।

आलोक अग्रवाल, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 2008

सं. ए.-12011/17/2006-प्रशा.-2---इस विभाग के दिनांक 2 नवम्बर, 2006, 7 फरवरी, 2007 और 6 अगस्त, 2007 की समसंख्यक अधिसूचनाओं के क्रम में, राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव श्रीमती जयन्ती श्रीनिवासन की उसी पद में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में नियुक्ति की अवधि को 30.06.2008 तक अगले छह महीने की अवधि के लिए या नियमित वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के उपलब्ध होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. उपर्युक्त कर्मचारी की तदर्थ प्रोन्नति से उन्हें नियमित नियुक्ति या सीएसएसएस के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड में अनिश्चितकाल के लिए बने रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। उनके द्वारा तदर्थ आधार पर की गई सेवा की गणना वरिष्ठता निर्धारण या अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए पात्रता हेतु नहीं की जाएगी और चयन सूची के उम्मीदवार उपलब्ध होने पर उन्हें प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

दिनांक 14 जनवरी 2008

सं. ए.-19011/1/2008-प्रशा.-2---राष्ट्रपति, सुश्री अनुराधा ठाकुर भा.प्र.से. (हिमाचल प्रदेश : 94) को आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में दिनांक 11 जनवरी, 2008 के पूर्वाह्न से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उप सचिव नियुक्त करते हैं।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. ए.-19011/261/2006-स्थापना--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री आर. एल. बगर्जी, निदेशक, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एस. पी. एस. सांगवान, अवर सचिव

दिनांक 3 जनवरी 2008

सं. ए.-19011/220/2001-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री डी. पी. भारद्वाज, अवर सचिव, केन्द्रीय सचिवालय सेवा को, केन्द्रीय सचिवालय सेवा का चयन ग्रेड (उप सचिव) के लिए दिनांक 1 जनवरी, 2008 पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग में पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

यह तदर्थ नियुक्ति निम्न निबंधन एवं शर्तों के अध्वधीन होगी:-

(i) इस तदर्थ नियुक्ति से उन्हें इस श्रेणी में अनिश्चितकाल के लिए सेवा जारी रखने के लिए या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए या श्रेणी-1 में वरिष्ठता हेतु मांग के लिए कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(ii) यह तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

एस. पी. एस. सांगवान, अवर सचिव

दिनांक 7 जनवरी 2008

सं. ए.-19011/227/4/2002-स्थापना-1--श्री विनोद राय, भारतीय प्रशासनिक सेवा (केरल : 72), भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त होने के परिणामस्वरूप, 07 जनवरी, 2008 से वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव के कार्यभार से मुक्त हो गए हैं।

एस. पी. एस. सांगवान, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 2008

सं. ए.-19011/27/2008-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री अरूण रामानाथन, आई. ए. एस. (तमिलनाडु : 73) को 9 जनवरी, 2008 के पूर्वाह्न से वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

आलोक भटनागर, निदेशक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. ए.-32013/8/2007/ग्रुप-ए/ईड/3744-58--इस कार्यालय की दिनांक 29.11.2007 की अधिसूचना सं. ए.-32013/8/2007/ग्रुप-ए/ईड/3527-53 के क्रम में राष्ट्रपति, भारतीय सिविल लेखा सेवा (समूह 'क') भर्ती नियमावली के अनुसार निम्नलिखित वरिष्ठ लेखा अधिकारियों (समूह 'ख') को 8,000-275-13,500/- रु. के वेतनमान में कनिष्ठ समयमान के पदों पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से भारतीय सिविल लेखा सेवा (समूह 'क') के कनिष्ठ समयमान में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं:-

क्र. सं.	नाम
	सर्व/श्री
1.	सत्य नारायण
2.	श्रीमती कांता अरोड़ा
3.	एन. सी. जैन

परिवीक्षा की अवधि उपर्युक्त अधिकारियों के कनिष्ठ समयमान के पदों का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष के लिए होगी।

संजीव मिश्रा, संयुक्त महालेखा नियंत्रक

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 2008

सं. ए.-11019/2/2007-ई.जी.-I--राष्ट्रपति, भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के श्री पुष्प राज मेहता को दिनांक 26.12.2007 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 10,000-325-15,200/- रूपए के वेतनमान में प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा-परीक्षा), राजस्थान, जयपुर में कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

आर. प्रेम आनन्द, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी 2008

सं. ए.-32014/1/2006-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में सी.एस.एस. सेवा संवर्ग के निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों की 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में निजी सचिव के रूप में पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई नियुक्ति को उनके नाम के आगे दर्शाई अवधि अथवा नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने या अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं:-

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति की अवधि
1.	श्रीमती कुसुम जैन	01.01.2008 से 31.06.2008 तक
2.	श्रीमती मंजीत कौर	-तदैव-
3.	श्री आर. आर. एस. रावत	-तदैव-
4.	श्रीमती मधु गुप्ता	-तदैव-
5.	श्री कृष्ण पुंजवानी	-तदैव-
6.	श्री राज के. खन्ना	-तदैव-
7.	श्री वी. के. जैन	-तदैव-
8.	श्री रमेश कुमार खट्टर	-तदैव-
9.	श्री सतीश कुमार	-तदैव-
10.	श्री अनिल कुमार अखरिया	-तदैव-
11.	श्री आर. सी. मल्होत्रा	-तदैव-
12.	श्री रवि शंकर	-तदैव-
13.	श्रीमती नीलाक्षी	-तदैव-
14.	श्रीमती ज्योति नरुला	-तदैव-
15.	श्री जी. वी. एस. एस. एल. नरसिंहम	-तदैव-
16.	लल्लन मांझी	-तदैव-

2. उपर्युक्त अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति उन्हें पद पर इस ग्रेड में नियमित तौर पर बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति पर चयन सूची में शामिल किए जाने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के "ए एण्ड बी" (मज्द) ग्रेड में वरीयता का दावा प्रदान नहीं करेगी। तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए, समाप्त की जा सकती है।

मीताली घोष, अवर सचिव

#### कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 दिसम्बर 2007

सं. पीएफजी-(586)/98-प्रशा.-11--भारतीय कंपनी विधि सेवा में कनिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) अधिकारी श्री सी. एस. गोविन्दराजन ने दिनांक 31.10.2007 के अपराहन से सहायक कंपनी रजिस्ट्रार, चेन्नई के पद से पदत्याग कर दिया है तथा दिनांक 01.11.2007 के पूर्वाहन से, अगले आदेश तक कंपनी विधि बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र पीठ), चेन्नई में पीठाधिकारी का पदभार ग्रहण किया है।

जे. एस. गुप्ता, अवर सचिव

#### वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 2007

सं. 1(27)/2003-विस्फो.--पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन, नागपुर में मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, श्री एम. अंबुनाथन, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप दिनांक 30 नवम्बर, 2007, अपराहन को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

संजय कुमार थाडे, निदेशक

#### खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 2008

सं. पी-1/460/2008-स्थापना--मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के सचिवालय और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11 दिसम्बर, 2007 के पत्र सं.17/7/2007 ई.ओ.(एस.एम. 1) के अनुसरण में, श्री सुब्रमणियम विजय कुमार, आई. ए. एस. (हिमाचल प्रदेश : 76) को 14 जनवरी, 2008 के पूर्वाहन से अगले आदेशों तक खान मंत्रालय में अपर सचिव नियुक्त किया जाता है।

प्रमोद चन्द, अवर सचिव

#### भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 2008

संख्या ए. 19011/6/2005-प्रशासन--राष्ट्रपति, भारी उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव डॉ. सुरजित मित्रा, आई. ए. एस. (एएम : 77), को दिनांक 12.01.2008 (अपराहन) से अगले आदेश तक

22,400-525-24,500/- रुपए के वेतनमान में भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव के अपग्रेडेड पद पर अपर सचिव नियुक्त करते हैं।

के. के. शर्मा, अवर सचिव

(लोक उद्यम विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 जनवरी 2008

सं. ए.-32013/1/2005-प्रशासन--राष्ट्रपति, एतद्वारा लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में श्री रंग लाल मीणा की संयुक्त सलाहकार के रूप में तदर्थ नियुक्ति की अवधि को दिनांक 18.1.2008 से अगले छः माह तक अथवा विचाराधीन पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

ज्योति माधुर, अवर सचिव

#### खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 11 जनवरी 2008

सं. ए.-19011/21/2007-प्रशा.-राष्ट्रपति, अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-I अधिकारी, श्री बी. के. जैन, को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में 8,000--13,500/- रु. के वेतनमान में सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्री बी. के. जैन ने 31.12.2007 (पूर्वाहन) से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में सहायक निदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एस. के. मोहन्ती, अवर सचिव

#### उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी 2008

सं. ए.-32012/1/2002-स्थापना--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 1 जनवरी, 2008 के का. जा. संख्या 7/16/2007-सी.एस.-I के अनुसरण में इस विभाग के निम्नलिखित नियमित सहायकों को उपभोक्ता मामले विभाग में 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि को समय-समय पर सूचित तदर्थ पदोन्नति के निबंधन एवं शर्तों के अध्याधीन दिनांक 30.06.2008 तक अथवा पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं :--

क्र. सी. एस. नाम	वह तारीख जब से अनुभाग		
सं. एल. नं.	अधिकारी के पद पर		
	स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं।		
1	2	3	4
1.	865/89	श्री डी. सी. देवगुण	25.03.2004
2.	871/89	श्री वी. के. सहगल	25.03.2004
3.	872/89	श्री ओमबीर सिंह	06.04.2004



1	2	3	4
4.	878/89	श्री अमरजीत सिंह	01.04.2004
5.	942/89	श्री गोपाल सिंह	25.03.2004
6.	383/91	श्रीमती शैलेश कुमारी	12.10.2006

प्रेमा भट्ट, अवर सचिव

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 2008

सं. ए.-32013/01/2008-स्था.-1--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के एक नियमित अनुभाग अधिकारी श्री शारदा प्रसाद को 31.12.2007 के पूर्वाह्न से 10,000--15,200 रु. के वेतनमान में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में अवर सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्त करते हैं।

उपर्युक्त नियुक्ति एम. ए. संख्या 2170/2006, ओ. ए. संख्या 2793/2005, एम. ए. संख्या 2710/2005 में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के दिनांक 11.1.2007 के आदेश की शर्तों के अधीन होगी।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 10 जनवरी 2008

सं. ए.-31011/01/06-प्रशा.1(ए)--राष्ट्रपति, निम्नलिखित वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक 'बी' के पद पर स्थाई हैसियत में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	स्थायी नियुक्ति की तारीख
1.	श्री सतीश शेषराव सोनवने	31.03.2007
2.	डॉ. (सुश्री) सुशीला देवी नेगी	15.04.2007

एस. पी. कतनौरिया, अवर सचिव

दिनांक 14 जनवरी 2008

सं. ए.-19013/01/2007-प्रशा.1(ए)--राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा (आई. डी. ए. एस. : 91) की अधिकारी, श्रीमती मधु वधावन सिन्हा को 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में निदेशक के रूप में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 14.01.2008 (पूर्वाह्न) से अथवा आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. पी. कतनौरिया, अवर सचिव

सं. ए.-01/18/2006-प्रशा.1(ए)--राष्ट्रपति विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक 'सी' के पद पर स्थाई हैसियत में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

1	2	3
1.	श्री राजीव कुमार	- 10.07.2007
2.	डॉ. (सुश्री) वन्दना चौधरी	- 15.06.2007
(पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में स्थानान्तरित)		
3.	डॉ. (श्रीमती) अनिता अग्रवाल	- 28.06.2007

एस. पी. कतनौरिया, अवर सचिव

(बायोटेक्नोलॉजी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 जनवरी 2008

सं. ए.-12011/01/2005-स्था.--राष्ट्रपति, इस विभाग के कनिष्ठ विश्लेषक, डॉ. पीयूष गोयल को वैज्ञानिक "बी" के रूप में इस विभाग में जैव प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र के योजना पद के प्रति 8,000-275-13,500 /- रुपये के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए 8 जनवरी, 2008 के पूर्वाह्न से प्रभावित अथवा आगामी आदेशों के निर्गमित किए जाने पर्यन्त, इनमें जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

प्राची सरूप, निदेशक

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 14 जनवरी 2008

सं. ए.-12013/01/2007-स्था.-I--इस विभाग की अधिसूचना सं. ए.-12014/01/2003-प्रशासन, दिनांक 7 नवम्बर, 2005 और दिनांक 20 मार्च, 2006 के क्रम में राष्ट्रपति, श्री राजेश कुमार, उप अभियन्ता, हरियाणा राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में, 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में समावेशन आधार पर 14 अक्टूबर, 2007 के पूर्वाह्न से वैज्ञानिक 'सी' के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. वे, समावेशन की तारीख से, एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

एस. के. कालड़ा, अवर सचिव

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 जनवरी 2008

सं. मवि/11/3/2005-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक, लोक-शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 1 नवम्बर, 2007 के आदेश सं. 4/1/2007-सी.एस.आई.(डी) के अनुसरण में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के उप सचिव, श्री एम. एल. शर्मा, को वर्ष 2001 से, 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में चयन ग्रेड (उप सचिव) में शामिल किए जाने के कारण उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

टी. के. गुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. पूर्वमं/11/1/2008-स्था.--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 28 दिसम्बर, 2007 के का.जा. सं. 15/7/2007-ई.ओ. (एम.एम-1) का अनुसरण करते हुए तथा श्री तरनजीत सिंह, आई.सी.ए.एस-1995 को 12,000-375-16,500/-रु. के वेतनमान में दिनांक 14.1.2008 से चार वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में उप सचिव के पद पर नियुक्ति होने पर मंत्रालय की शक्ति में शामिल किया जाता है।

कृष्ण कुमार, अवर सचिव

## पर्यावरण और वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 दिसम्बर 2007

सं. 17013/23/2007 भा.व.से.-II--भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 7 के उप विनियम 3 में दिए गए उपबंधों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2005, 2006 और 2007 के लिए महाराष्ट्र राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में पदोन्नति के लिए चयन सूची तैयार करने हेतु चयन समिति की दिनांक 17 अगस्त, 2007 को एक बैठक आयोजित हुई। भारतीय वन सेवा के महाराष्ट्र संवर्ग में उपलब्ध पदोन्नति रिक्तियों को भरने हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने उक्त बैठक में तैयार की गई चयन सूची में महाराष्ट्र राज्य वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के नामों को अनुमोदन कर दिया है:--

वर्ष 2005 की चयन सूची :

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1 *	वी. बी. ठाकरे	26.05.1960
2.	पी. के. महाजन	08.12.1960
3.	जी. के. काले	12.01.1958
4.	बी. जे. भूतड़ा	15.11.1955
5.	ए. डी. भौसले	01.06.1958
6.	डॉ. डी. आर. गुजार	07.10.1952
7.	ए. आर. मून (एस सी)	07.06.1954
8.	यू. जी. कडलाग	02.02.1957
9.	एस. जी. चौपड़े	16.07.1957

\* क्र.सं. 1 में दिए गए नाम को उनके विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही की क्लीयरेंस और राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के अध्यक्षीन शामिल किया गया है।

वर्ष 2006 की चयन सूची :

वर्ष 2006 के दौरान महाराष्ट्र संवर्ग में भारतीय वन सेवा में पदोन्नति के लिए शून्य रिक्ति होने के कारण वर्ष 2006 के लिए कोई चयन सूची तैयार नहीं की गई।

वर्ष 2007 की चयन सूची :

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1 *#	वी. बी. ठाकरे	26.05.1960
2.	जी. एस. बाल्की	10.08.1954

\*क्र. सं. 1 में दिए गए नाम को उनके विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही की क्लीयरेंस और राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के अध्यक्षीन शामिल किया गया है।

#क्र. सं. 1 में दिए गए नाम को विनियम 5(4) के दूसरे उपबंध के तहत चयन सूची के सामान्य आकार के अतिरिक्त सूची में शामिल किया गया है।

बी. सी. बेहरा, अवर सचिव

दिनांक 20 दिसम्बर 2007

सं. 17013/30/3007 भा.व.से.-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) नियमावली 1966 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 8 के उप-नियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा के निम्नलिखित सात अधिकारियों को वर्ष 2007 की चयन सूची में इनका नाम शामिल किए जाने के आधार पर भारतीय वन सेवा में नियुक्त करते हैं और भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत भारतीय वन सेवा का मध्य प्रदेश संवर्ग आवंटित करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.	अशोक कुमार मिश्रा	15.08.1962
2.	आनंद कुमार सिंह	30.10.1962
3.	अमित कुमार दुबे	13.04.1967
4.	प्रभात कुमार वर्मा	11.01.1963
5.	नरेन्द्र कुमार सनोडिया	16.08.1964
6.	यमुना प्रसाद सिंह	20.08.1962
7.	चौक सिंह निनामा	25.08.1962

बी. सी. बेहरा, अवर सचिव

दिनांक 24 दिसम्बर 2007

सं. 22062/52/1998 भा.व.से.-II--भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली 1966 के विनियम 5 के उप विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, एर्नाकुलम

पीठ के 1998 के मूल आवेदन सं. 725 (राजेश रवींद्रन बनाम यू.ओ.आई. एवं अन्य) के दिनांक 05.09.2001 के निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में वर्ष 2002 के ओ.पी.सं. 22944 के दिनांक 10.8.2006 के निर्णय के अनुपालन में केन्द्र सरकार इस मंत्रालय की अधिसूचना सं. 17015/1/95-भा.व.से.-II दिनांक 29.3.1966, के तहत श्री राजेश रवींद्रन, भा.व.सेवा, 1995 के पूर्व आवंटित असम मेघालय संयुक्त संवर्ग के स्थान पर केंरल संवर्ग आवंटित करती है।

बी. सी. बेहरा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 दिसम्बर 2007

सं. 24012/3/2007-भा.व.से.-II--राष्ट्रपति, हरियाणा संवर्ग के 1988 बैच के भा.व.से. अधिकारी, श्री सुशील कुमार (हरियाणा : 1988) का त्यागपत्र 1 अक्टूबर 2004 से स्वीकार करते हैं।

अशोक कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 जनवरी 2008

सं. 19011/01/2008-भा.व.से.-I(.)--राष्ट्रपति, श्री पी. आर. मोहन्ती, भारतीय वन सेवा के उड़ीसा संवर्ग के 1972 के आवंटन वर्ष के भारतीय वन सेवा अधिकारी को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सेन्ट्रल स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर 26,000/- (निश्चित) के वेतनमान में 9 जनवरी, 2008 पूर्वाह्न से और उनकी अधिवर्षिता तक अथवा अगले आदेश होने तक जो भी पहले हो, वन महानिदेशक और विशेष सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

विवेक सक्सेना, निदेशक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 जनवरी 2008

सं. ए.-12012/11/2005-पी.-II(.)--राष्ट्रपति, श्री अग्रिम कौशल, आई. ई. एस. (95) को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में 12,000-375-16,500/-रूपये के वेतनमान में 31 दिसम्बर 2007 के अपराह्न से चार वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, उप सचिव के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

प्रेमा मोहन, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 जनवरी 2008

सं. ए.-24011/1/2007-एन.आर.सी.डी.-I--पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में सक्षम समिति द्वारा अनुमोदन के परिणामस्वरूप श्री एस. के. श्रीवास्तव, तदर्थ आधार पर उप-निदेशक की सेवाओं को आगामी आदेशों तक दिनांक 8.6.2008 से एक वर्ष के लिए, जो भी पहले हो, और बढ़ा दिया गया है।

एम. एल. पराशर, अवर सचिव

राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 जनवरी 2008

सं. ए.-23011/1/2002-एन.आर.सी.डी.-I--राष्ट्रपति, श्री ललित कुमार बोकोलिया, वैज्ञानिक 'ग' को दिनांक 01.01.2008 से अगले आदेशों तक फ्लैक्सिबल कम्पैसेटरी स्कीम के अंतर्गत पदोन्नति आधार पर 12,000-375-16,500 रु. के वेतनमान में राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में वैज्ञानिक 'घ' नियुक्त करते हैं।

संजीव स्वरूप, निदेशक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 2007

सं. ए.-12025/164/2006-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. शादाब ताज को 10.07.2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/-रूपए के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ. शादाब ताज को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। डॉ. शादाब ताज दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगे।

(श्रीमती) माया प्रकाश, अवर सचिव

दिनांक 14 जनवरी 2008

सं. 12025/29/2005-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. ऋचा अग्रवाल विवाहपूर्व टंडन को 15.10.2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500 रूपए के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ. ऋचा अग्रवाल विवाहपूर्ण टंडन को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कानपुर के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। वे दो वर्षों के लिए परिवीक्षा पर होंगी।

(श्रीमती) माया प्रकाश, अवर सचिव

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 2008

सं. ए.-22012/2/2007-स्थापना-III--भारतीय सांख्यिकीय सेवा के कनिष्ठ समय वेतनमान (जेटीएस) में अपनी पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप तथा सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 06.12.2007 के कार्यालय आदेश सं. 12015/2/2006-आईएसएस के अनुसरण में श्री के. के. बंसल ने दिनांक 26.12.2007 (पूर्वाह्न) से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 8,000-275-13,500/-रूपए के वेतनमान में सहायक निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है।

पी. जी. कलाधरण, अवर सचिव

दिनांक 15 जनवरी 2008

सं. ए.-32014/2/2005-स्थापना-I--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 नवम्बर, 2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/18/2006-सी. एस.-II के तहत जोनिंग स्कीम के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय सहित) के संवर्ग में वर्ष 2004 की केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) की प्रवर सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप श्री देवेन्द्र कुमार, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के स्थायी ग्रेड 'ग' के आशुलिपिक को 18 दिसम्बर, 2007 (पूर्वाह्न) से निजी सचिव (ग्रेड 'क' और 'ख' विलयित) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

पी. जी. कलाधरण, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. 38011/2/2007-स्था.-II(भाग)--सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने के परिणामस्वरूप, कृषि एवं सहकारिता विभाग में श्री जे. एस. निगम, उप निदेशक (टी एम ओ पी) 31 दिसम्बर, 2007 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त होंगे।

के. संजयन, अवर सचिव

सं. 38011/9/2007-स्था.-II(भाग)--सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने के परिणामस्वरूप, कृषि एवं सहकारिता विभाग में श्री आर. एस. दास, उपायुक्त (एम एण्ड टी) 31 दिसम्बर, 2007 के उपराह्न सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त होंगे।

के. संजयन, अवर सचिव

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. ए.-12025/8/2007-प्रशासन-1--राष्ट्रपति, डॉ. बाबू राम, सहायक आयुक्त (पशुपालन), कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) को 18 जनवरी, 2008 पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर 12,000-375-16,500/- रूपए के वेतनमान में छः महीनों के लिए या नियमित पदधारी के आने तक, जो भी पहले हो या आगामी आदेशों तक उपायुक्त (पशुपालन) नियुक्त करते हैं।

पी. एल. मीना, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110114, दिनांक 17 दिसम्बर 2007

सं. ए.-12021/5/1998-स्थापना-II--राष्ट्रपति, श्री आर. मोहन कुमार को इस मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में दिनांक 26.11.2007 (पूर्वाह्न) से 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

महाबीर प्रसाद, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 2008

सं. ए.-12011/5/2006-ई-1--राष्ट्रपति, अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा के नियमित सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-I (वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी) श्री विजेन्द्र सिंह को 31.12.2007 के पूर्वाह्न से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग में 8,000-275-13,500 रुपये के वेतनमान में सहायक निदेशक (पी) के ग्रेड में भारतीय सांख्यिकी सेवा के जे.टी.एस. स्तर पर नियुक्त करते हैं।

के. के. मिश्रा, अवर सचिव

सं. ए.-12011/5/2006-ई-1--राष्ट्रपति अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा के नियमित सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-I (वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी) श्री सुभाष चन्दर को 28.12.2007 के पूर्वाह्न से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग में 8,000-275-13,500 रुपये के वेतनमान में भारतीय सांख्यिकी सेवा के जे.टी.एस. स्तर पर सहायक निदेशक (पी) के ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

के. के. मिश्रा, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 2008

सं. 17014/32/97-एस.सी.डी.-IV--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद की धारा 52 (iii) के अनुसरण में श्री बी. एस. चुम्बर, उपमहाप्रबंधक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को डॉ. एस. पी. राम के स्थान पर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम निदेशक मंडल के शासकीय निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

नीलांबुज शरण, उप सचिव

सं. 17014/32/97-एस.सी.डी.-IV--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद की धारा 52 (ii) के अनुसरण में श्री पंकज जोशी, निदेशक, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को श्री श्याम कपूर, निदेशक, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के स्थान पर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं

विकास निगम निदेशक मंडल के शासकीय निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

नीलांबुज शरण, उप सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 जनवरी 2008

सं. 2(8)/2007-का.-I(खण्ड-II)--राष्ट्रपति जी ने श्री मोहम्मद अकरम खान (कर्मचारी कोड संख्या-956) को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 11.01.2008 के पूर्वाह्न से 8,000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में अस्थायी रूप से वैज्ञानिक 'बी' नियुक्त किया है।

2. उन्हें उपर्युक्त वेतनमान के न्यूनतम सोपान पर वेतन मिलेगा।

3. वे नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

दिनांक 16 जनवरी 2008

शुद्धि-पत्र

श्री मोहम्मद अकरम खान (कर्मचारी कोड संख्या-956) को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 8,000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में अस्थायी रूप से वैज्ञानिक 'बी' नियुक्त करने के संबंध में, दिनांक 11.01.2008 की अधिसूचना सं. 2(8)/2007-का.-I(खण्ड-II) में आंशिक संशोधन करते हुए अंग्रेजी संस्करण में श्री मोहम्मद अकरम खान की पद पर नियुक्ति की तारीख को तथा अधिसूचना जारी होने की तिथि को नीचे दिए अनुसार पढ़ा जाए :-

11.01.2007 के स्थान पर "11.01.2008"।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 जनवरी 2008

सं. पीएफ/4999/एनआईसी/2007-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री प्रशांत अरविंद. खादयाते, कर्मचारी कोड सं. 4999 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र-महाराष्ट्र राज्य एकक, मुंबई से वैज्ञानिक "सी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उपनिदेशक (प्रशासन-I)

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. 3-5/2005-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, सहर्ष सी.एस.एस.एस. संवर्ग के प्रधान निजी सचिव, श्री राम रोशन की डाक विभाग में 12,000-375-16,500 रु. के वेतनमान में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में तदर्थ नियुक्ति को 30.06.2008 तक अथवा जब तक कार्मिक एवं

प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामित नियमित वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव उपलब्ध होता है अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक के लिए आगे बढ़ाते हैं।

2. यह नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और इससे अधिकारी को ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने के लिए कोई अधिकार नहीं प्रदान करेगी।

भगवान दास, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

दिनांक 2 जनवरी 2008

सं. 3-5/2005-प्रशासन-I--राष्ट्रपति सहर्ष सी.एस.एस.एस. संवर्ग के निम्नलिखित निजी सचिवों की 10,000-325-15,200 रु. के वेतनमान में डाक विभाग में प्रधान निजी सचिव के तौर पर तदर्थ नियुक्ति का 30.06.2008 तक की अवधि के लिए अथवा जब तक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियमित अधिकारी नामांकित नहीं किया जाता है अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक के लिए बढ़ाते हैं।

1. श्री आर. के. मंगल

2. श्री श्यामल मुखर्जी

3. सुश्री प्रतिमा शर्मा

2. यह नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और यह नियुक्ति अधिकारी को ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए अथवा केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के प्रधान निजी सचिवों के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने के लिए कोई अधिकार नहीं प्रदान करेगी।

भगवान दास, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

दिनांक 8 जनवरी 2008

सं. 1-3/2007-प्रशासन-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 5/17/2007-सीएस.-I(डेस्क) दिनांक 6.12.2007 के अनुसरण में, राष्ट्रपति सहर्ष सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी श्री सूरज भान को डाक विभाग में पूर्णतया तदर्थ आधार पर सहायक महानिदेशक [सीएसएस का ग्रेड-I (यूएस)] के तौर पर 10,000-325-15,200 रु. के वेतनमान में 31.12.2007 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति उन्हें ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने या चयन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने के लिए कोई अधिकार नहीं प्रदान करेगी। यह तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कोई कारण दिए समाप्त की जा सकती है। कथित नियुक्ति एम.ए.सं. 2170/2006, ओ. ए. सं. 2793/2005, एम.ए. सं. 27/10/2005 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मुख्य पीठ, नई दिल्ली के दिनांक 11.01.2007 के आदेश के अधधीन होगी।

भगवान दास, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2008

सं. 2007 ई (ओ)II/25/I--श्री तुषार कांति भट्टाचार्य, डब्ल्यू बी एच जे एस, ने 22.06.2007 (पूर्वाह्न) से अपीलीय प्राधिकारी, मेट्रो रेल, कोलकाता के कार्यालय का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

मैथ्यू जॉन, सचिव, रेलवे बोर्ड

सं. ई आर बी-1/2007/2/73--श्री दीपक कृष्ण, उ.प्र.ग्रे./भा.रे.इंजी.से., उत्तर रेलवे को 07.01.2008 के पूर्वाह्न से 24,050--26,000/-रु. के ग्रेड में अपर सदस्य (सीई), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

मैथ्यू जॉन, सचिव, रेलवे बोर्ड

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्रालय  
(पोत-परिवहन-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 2008

सं. एल एच-21012/2/2007-एस एल--राष्ट्रपति, दीप-स्तंभ और दीप-पोत-महानिदेशालय में सहायक कार्यपालक अभियंता के ग्रेड में कार्य कर रहे निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से, अगले आदेशों तक 10,000-325-15,200/-रु. के वेतनमान में उप निदेशक के पद पर पदोन्नत करते हैं :

1. श्री सी. पी. सिंह, उप निदेशक (इलैक्ट्रोनिक्स) : 27.08.2007 (पूर्वाह्न)
2. श्री ए. के. सिंह, उप निदेशक (इलैक्ट्रोनिक्स) : 14.09.2007 (पूर्वाह्न)
3. श्री जी. के. गुप्ता, उप निदेशक (सिविल) : 28.08.2007 (पूर्वाह्न)

वी. पी. राणा, अवर सचिव

सं. एल एच-21013/1/2004-एस एल--राष्ट्रपति, श्री प्रदीप मुखोपाध्याय, तकनीशियन (इलैक्ट्रिकल) को दीप-स्तंभ और दीप-पोत महानिदेशालय में 18 जून, 2007 पूर्वाह्न से, अगले आदेशों तक 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में सहायक अभियंता (इलैक्ट्रिकल) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. ए-22012/1/2005-ई-II(बी)--राष्ट्रपति, इस विभाग की दिनांक 10.08.2007 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में प्रधान निजी सचिव श्री वी. पी. शर्मा और श्री आर. एल. आहूजा की वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग में तदर्थ नियुक्ति की अवधि क्रमशः दिनांक 31.03.08 और 30.06.08 तक अथवा नियमित वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

वीरेंद्र मोहन, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 जनवरी 2008

सं. ए-19011/12/2007-ई-I--राष्ट्रपति, आईएसएस के वरिष्ठ समय-मान अधिकारी श्री मोती राम रामचंदानी को पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में तदर्थ आधार पर 12,000-375-16,500 रु. के वेतनमान में दिनांक 05.11.2007 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक संयुक्त निदेशक (आईएसएस के जेएजी) के पद पर नियुक्त करते हैं।

पूर्णिमा राजेन्द्रन, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 2008

सं. 01/08 (फा.सं. 2/1/2008-प्रशा.-दो)--राष्ट्रपति, श्री गिरीश बी. प्रधान, भा.प्र.से. (महाराष्ट्र : 1977), संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय को, 14 जनवरी, 2008 के पूर्वाह्न से, अगले आदेशों तक, विद्युत मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

चन्दन मुखर्जी, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. 15011/2/2002-ईडब्ल्यू-1--शहरी विकास मंत्रालय में आर्बिटेटर श्री जे. बी. फाड़िया दिनांक 31.12.2007 (अपराह्न) को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

जे. एस. रावत, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2008

सं. ए-11016/01/2007-सी.एल.एस.-II--राष्ट्रपति जी, श्री ए. आर. सिद्धिकी, पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, बंगलौर को केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, हैदराबाद के पीठासीन अधिकारी के पद का अतिरिक्त कार्यभार उनके कार्य ग्रहण करने की तिथि से छः माह के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सौंपते हैं।

पी. के. ताम्रकार, अवर सचिव

दिनांक 17 जनवरी 2008

सं. ए-19011/1/2005-सी.एल.एस.-II--राष्ट्रपति जी, श्री नागेन्द्र कुमार, पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय-II, धनबाद को केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय-I, धनबाद के पीठासीन अधिकारी के पद का अतिरिक्त कार्यभार उनके कार्य ग्रहण करने की तिथि से छः माह के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सौंपते हैं।

पी. के. ताम्रकार, अवर सचिव

## LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110 001, the 28th November 2007

No. PF. 767-R(3)/AN-I/GN-6001/2007.—On reversion from deputation from the Ministry of Petroleum & Natural Gas, Shastri Bhawan, New Delhi, Shri U. K. Mitra has resumed his duties in this Secretariat as Joint Director (LARRDIS) Grade-I in the scale of pay of Rs. 12,750-375-16,500/- with effect from the forenoon of 22nd November, 2007.

ABHIJIT KUMAR, Director

The 30th November 2007

No. PF. 120-R(3)/GN-6007/AN-I/2007.—The Speaker is pleased to appoint Shri Hari M. Pandey, Under Secretary in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- to the grade of Deputy Secretary Grade-II in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from 30th November, 2007 until further orders.

ABHIJIT KUMAR, Director

The 3rd December 2007

No. PF. 23-R(3)/AN-I/GN-6010/2007.—In continuation of Notification No. GN-5894 dated 18th May, 2007, the Speaker is pleased to extend the term of deputation of Shri R. Kothandaraman, Director as Secretary, Department of Parliamentary Affairs, Government of Nagaland for a further period of three months with effect from 1st January, 2008 upto 31st March, 2008 or until further orders, whichever is earlier.

ABHIJIT KUMAR, Director

The 7th December 2007

No. PF. 1305-R(3)/GN-6011/AN-I/2007.—The Speaker is pleased to appoint Smt. Pratima Srivastava, Joint Director (Translation) Grade-I in the scale of pay of Rs. 12,750-16,500/- to the grade of Director (Translation) in the scale of pay of Rs. 15,100-400-18,300/- with effect from 7th December, 2007 until further orders.

ABHIJIT KUMAR, Director

The 26th December 2007

No. PF. 154-R(3)/GN-6014/AN-I/2007.—On reversion from deputation to Debts Recovery Tribunal-I, Delhi, Dr. Satya Prakash has resumed duty in this Secretariat as Under Secretary in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 14th December, 2007.

ABHIJIT KUMAR, Director

## PLANNING COMMISSION

New Delhi-110 001, the 18th December 2007

No. A. 32014/1/2006-Adm-III.—In continuation of Planning Commission's Notifications of even number dated 25.07.2007 and in pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/6/2007-CS.II dated 17.12.2007, the President is pleased to extend the period of ad-hoc promotion of the following Private Secretaries of C.S.S.S. Cadre as Principal Private Secretary in Planning Commission in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- upto 30.06.2008 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier :—

1. Shri R.N. Sharma
2. Shri R.K. Khurana
3. Shri Rajeshwar Mukherjee
4. Sh. Shyam Lal
5. Smt. Meena Tandon
6. Sh. A.K. Chakrabarti
7. Sh. V. Sivakumaran
8. Santosh Ailawadi
9. Smt. Sudha Rajagopalan
10. Sh. Ashok Kumar Sharda
11. Sh. Iqbal Singh
12. Shri Murli Dhar

2. The appointment to the post of PPS is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right on them to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of Private Secretary (designated as PPS) of CSSS.

ANIL MALHOTRA, Dy. Secy.

New Delhi-110001, the 9th January 2008

No. A-43014/3/2007-Admn.II.—Consequent upon his transfer from Regional Evaluation Office of Programme Evaluation Organisation (PEO), Chennai to Department of Information Technology as Deputy Director, vide Department of Economic Affairs (IES Section) Order No. 13016/4/2007-IES dated 16th November, 2007 (P-4/2007), Shri S. Arputhaswamy, Research Officer (Grade-IV of IES) is relieved of his duties in Regional Evaluation Office of Programme Evaluation Organisation (Planning Commission), Chennai with effect from 10th January, 2008 (A.N.)

N.K. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 11th January 2008

No. A. 12025/16/2007-Admn.I.—On the recommendation of UPSC, the President is pleased to appoint Shri I.A. Khan,

a Regular Deputy Adviser (Monitoring-Power) in the Planning Commission as Joint Adviser (Industrial Economic/Management) in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- on proforma promotion basis w.e.f. 01.01.2008 or until further orders, whichever is earlier.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 15th January 2008

No. A. 12025/16/2006-Admn.I.—On the recommendation of UPSC, the President is pleased to appoint Shri R.K. Kaul, a Regular Deputy Adviser (Monitoring-Power) in the Planning Commission as Joint Adviser (Industries and Infrastructure Planning) in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- on regular promotion basis w.e.f. 09.01.2008 or until further orders, whichever is earlier.

S. KESAVA IYER, Under Secy

No. A. 12025/27/2002-Adm.I.—On completion of tenure of his Central Deputation on 13.01.2008, Dr. S.K. Khanduri, IPS (KL:1984), who was working as Director (Forestry) in the Planning Commission is granted Earned Leave for 18 days for the period from 14 January, 2008 to 31 January, 2008. After expiry of above leave period, Dr. Khanduri will report to his parent cadre i.e. the State Govt. of Kerala.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

#### SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 14th January 2008

No. 181/3/2007 (Gr 'B')/482.—The Competent Authority hereby appoints Shri Rakesh Kumar (SC), Assistant, officiating as Section Officer on ad-hoc basis in the Secretariat of the Election Commission of India, as Section Officer on regular basis with effect from 01.01.2008 and until further orders.

2. Further, the above appointment is subject to final outcome of the CWP No. 8225-43/2003-Shri Tapan Datta & Others Vs. Election Commission of India presently pending in the Hon'ble Delhi High Court.

STANDHOPE YUHLUNG, Under Secy.

The 18th January 2008

No. A-19/G-A/84.—In continuation of the Commission's Notification of even number dated 18th November, 2004 and in pursuance of the Appointments Committee of the Cabinet, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training's reference No. 6/4/2008-EO(S.M.I.), dated 12th January, 2008, Dr. Mrutyunjay Sarangi, IAS (TN:77), is hereby appointed as Officer on

Special Duty, Delimitation Commission of India, in the upgraded post, in the rank and pay of Additional Secretary to the Government of India with effect from 12th January, 2008 for a period co-terminus with the tenure of the Delimitation Commission, or until further orders, whichever is earlier.

STANDHOPE YUHLUNG, Under Secy.

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 18th January 2008

No. 14011/1/2006-SR (Part).—In continuation of this Ministry's Notification of even number dated 31.10.2007, the period of deputation of Shri K.N. Manjunatha, Deputy Director in the Army Head Quarters, New Delhi as Deputy Secretary, Zonal Council Secretariat, Ministry of Home Affairs, New Delhi, is extended for a further period of 3 months with effect from 01st January 2008, or till the new incumbent joins the post, whichever is earlier.

SUMITA MUKHERJEE, Dir.

New Delhi-110001, the 18th January 2008

No. I-18011/4/2007-IPS.IV.—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Asra Garg, IPS (Tamil Nadu : 2004), in the Indian Police Service with effect from the 06th September, 2006.

RAJINDER KUMAR, Section Officer

New Delhi, the 21st January 2008

No. 20/G/2945-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Devinder Kumar, CSS, as Deputy Secretary in the Ministry of Home Affairs, purely on ad hoc basis with effect from the forenoon of 15th January, 2008

2. The ad-hoc promotion is subject to the following conditions:—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade.
- (ii) Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

O. P. SHARMA, Under Secy.

No. 20/G/2944-Ad.I.—The President is pleased to appoint Smt. Shyamala Mohan, CSS, as Deputy Secretary in the Ministry of Home Affairs, purely on ad hoc basis with effect from the forenoon of 14th January, 2008.

2. The ad-hoc promotion is subject to the following conditions:—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in



the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade.

- (ii) Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

O. P. SHARMA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)  
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

New Delhi, the 21st January 2008

No. A. 32014/1/2004-CHTI/2007-CHTI/198.—The Secretary (Official Language), Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, on recommendation of the Departmental Promotion Committee, is pleased to appoint the following Hindi Pradhyapak as Assistant Director (Language), Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme on promotion in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- from the date given against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1.	Shri Bankat Lal Sharma	03.12.2007
2.	Smt. Radhika Devi D.	07.01.2008
3.	Shri Damodaran M. P.	01.01.2008

B. C. MANDAL, Director

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC  
GRIEVANCES AND PENSIONS  
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi-110067, the 6th December 2007

No. 13016/02/2000-Trg.I.—The President is pleased to continue the appointment of Smt. Meera Narayanan, Under Secretary in the Department of Personnel & Training as Deputy Director (Management Services) in the Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi, on deputation basis, for a further period of one year w.e.f. 01.01.2008 to 31.12.2008 or, till her substitute joins the post, whichever is earlier.

2. This issues in continuation of this Department's notification of even No. dated 23.04.2007.

MANISHA BHATNAGAR, Under Secy.

New Delhi, the 9th January 2008

No. 20/G/1332-Ad.I(G).—The President is pleased to appoint Shri Pramod Kumar Sharma, an Officer of M.P. Financial Service, as Additional Private Secretary to the Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions (Shri Suresh Pachouri) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- from the forenoon of 31st December, 2007 on co-terminus basis or till he ceases to function as

Addl. Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs at the earliest.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

No. A. 12026/5/2004-Ad.I(G).—The President is pleased to extend the term of deputation of Shri Ghan Sham Singh, Assistant of Ministry of Defence Presently holding the post of Assistant Secretary (CCSCSB) in this Department in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- on deputation basis, for a further period of one year from 10.12.2007 to 09-12-2008 or until further orders.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

New Delhi, the 11th January 2008

No. 14013/02/2007-AIS-III.—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Gujarat, with effect from the dates shown against them :—

Sl. No.	Name of the Officer	Batch	Date of Confirmation
1.	Shri A. M. Mankad	1999	07.03.2006
2.	Shri P. K. Raval	1999	07.03.2006
3.	Shri. H. S. Patel	1999	06.04.2006

G. C. PANDEY, Under Secy.

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)  
STAFF SELECTION COMMISSION

New Delhi, the 8th January 2008

No. A. 19014/2/2003-Estt.I.—Consequent upon inclusion of their names in the Select List of Grade-I of Central Secretariat Service (Under Secretary Grade) for the years 2001 and 2002 vide the Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/2/2006-CS.I (Desk) dated 20.08.2007, the President is pleased to appoint the following permanent Section Officers of CSS Cadre, presently officiating as Under Secretaries on ad-hoc basis in Staff Selection Commission, as Grade-I Officers of CSS (Under Secretary) on regular basis :—

Sl. No. and CSL No.	Name of the Officer	Seniority Assigned in Grade-I as per DOPT's O.M. Dated 20.08.2007	Deemed date of appointment
---------------------	---------------------	---	----------------------------

SELECT LIST—2001

1.	Sat Prakash Phull-4014	22	01.07.2001
----	------------------------	----	------------

SELECT LIST—2002

2.	A. K. Sharma—4101	23	01.07.2002
3.	K. P. Harikumar—4104	26	01.07.2002

2. The appointment of the above mentioned Officers may be deemed to have made effective with from 01.07.2001 & 01.07.2002 respectively for the purpose of approved service as well as for fixation of their pay as Under Secretary on the notional basis. These officers shall also be entitled to exercise the benefit of option for fixation of their pay as provided in Provisions of FR-22. However, if any, such officer, who was promoted as ad-hoc Under Secretary prior to 1st July of their Select List year and has availed the benefit of option, shall not be eligible to re-exercise the option. The actual benefit would be available only from the date the officers are so appointed to the post of Under Secretary.

V. K. AGGARWAL, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS  
OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 7th January 2008

No. D.III/460/CF-31/07.—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Mohan Goenka as Honorary Consul of Poland in Kolkata with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Mohan Goenka comprises of the States of West Bengal, Jharkhand, Orissa, Bihar and Sikkim with the consular seat in Kolkata.

D. K. SHARMA, Dy. Chief of Protocol (F).

MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 19th November 2007

No. 111 (F. No. A-19012/19/2007-Ad.I).—The President of India is pleased to appoint Shri D.K. Gupta, IRS (IT : 91) as Director in the Department of Revenue for a period of five years with effect from 14.11.2007 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

The 7th December 2007

No. 116 (F. No. 50/15/2005-Ad.I).—Consequent upon inclusion of their names in the Select List for the years 2001 and 2002 of officers of the Central Secretariat Service (CSS) for appointment to Grade-I Under Secretary, the President of India is pleased to appoint the following officers of CSS as Under Secretary on regular basis with effect from the date shown against each and until further orders :—

Sl. No.	Name & Designation	CSL No.	Select List	Date of promotion
1	2	3	4	5
	(S./Sh./Smt./Ms.)			
1.	Alok Agarwal, Under Secretary	3776-A	2001	1.07.2001
2.	Vijay K. Sharma Under Secretary	3999	2001	1.07.2001

1	2	3	4	5
3.	M. K. Chandrahasan, Under Secretary	4022	2001	1.07.2001
4.	R. S. Dahiya, Under Secretary	4026	2001	1.07.2001
5.	Shashi Bhushan Kaushik, Under Secretary	4052	2001	1.07.2001
6.	Giassi Ram, Under Secretary*	4359	2001	1.07.2001

\* The officer mentioned at Sl. No. 6 has since retired.

2. The appointment of officer included in the aforesaid Select List, to the grade of Under Secretary, on regular basis, shall be subject to the final outcome in the Civil Writ Petition No. 3269/2003, CWP No. 3912/2003 and CWP No. 13352/2005 in the High Court of Delhi.

3. The officers would be entitled to arrears on account of re-fixation of their pay from the date of their actual appointments to the post of Under Secretary. In addition, these officers shall also be entitled to exercise the benefit of option for fixation of their pay as provided in Provisions of FR 22. However, such officers, who were promoted as ad-hoc Under Secretary prior to 1st July of their Select List year and had availed the benefit of split option, shall not be eligible to re-exercise the option.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

The 19th December 2007

No. 120: (F. No. A-19012/20/2007-Ad.I).—The President of India is pleased to appoint Shri K. Balamurugan, IRS (C & CE : 1997) as Deputy Secretary in the Department of Revenue, Ministry of Finance for a period of four years with effect from 14.12.2007 (AN) or until further orders, whichever is earlier.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

The 31st December 2007

No. 121: (F. No. A. 19011/28/2007-Ad.I).—The President of India is pleased to appoint Ms. Saroj Bala, IRS (IT : 1972), as Member of the Central Board of Direct Taxes (CBDT) in the Ministry of Finance, Department of Revenue with effect from 20.12.2007 (FN) and until further orders.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

The 2nd January 2008

No. 01 : (F. No. A. 19011/5/2005-Ad.I).—The President of India is pleased to appoint Shri K. Mohandas, IAS (KL : 74), Additional Secretary (Revenue) as Special Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance by

in-situ upgradation in the present post with effect from 02.01.2008 (AN) and until further orders.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

New Delhi, the 10th December 2007

No. 117: (F. No. A. 19011/27/2007-Ad.I).—The President of India is pleased to appoint Ms. Rasheda Hussain, (IC & CES : 78) as Joint Secretary (COFEPOSA) in Central Economic Intelligence Bureau under the Department of Revenue, for a period of five years w.e.f. 01.11.2007 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. RAMAKRISHNAN, Under Secy.

The 12th December 2007

No. 118: (F. No. A. 19011/1/2007-Ad. I).—The Government of India regrets to notify the death of Shri R. N. Upadhyay, IRS (IT : 1971), Member, Central Board of Direct Taxes, in the Department of Revenue on 21.11.2007.

V. RAMAKRISHNAN, Under Secy.

The 13th December 2007

No. 119: (F. No. A-19011/27/2007-Ad.I).—The President of India is pleased to appoint Ms. Rasheda Hussain, IRS (C&CE : 78) as Joint Secretary (COFEPOSA) under the Department of Revenue, for a period of five years w.e.f. 29.11.2007 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

2. The earlier Notification No. 117 dated 10th December, 2007 may be treated as cancelled.

V. RAMAKRISHNAN, Under Secy.

New Delhi, the 15th January 2008

No. 1/2008-ES F. No. 5/32/2006-ES (Pt.-I).—The President of India pleased to appoint Shri P. S. Walia, Section Officer, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs as Senior Technical Officer in the Financial Intelligence Unit-India, Ministry of Finance, Department of Revenue on ad-hoc deputation basis with effect from 26.12.2007 (FN.) for a period of one year, or till appointment on regular basis is made or until further orders, whichever is earlier.

S. G. P. VERGHESE, Under Secy.

No. 2/2008-ES F. No. 5/32/2006 ES (Pt.-I).—The President of India is pleased to appoint Shri D. S. Mishra, Sr. Statistical Officer, Ministry of Statistics & Programme Implementation as Senior Technical Officer in the Financial Intelligence Unit-India, Ministry of Finance, Department of Revenue on ad-hoc deputation basis with effect from 20.12.2007 (A.N.) for a period of one year, or till appointment on regular basis is made or until further orders, whichever is earlier.

S. G. P. VERGHESE, Under Secy.

No. 3/2008-ES (F. No. 5/32/2006-ES (Pt.-I).—The President of India is pleased to appoint Dr. V. Sriramappa, Assistant Director, Ministry of Small Scale Industries as Senior Technical Officer in the Financial Intelligence Unit-India, Ministry of Finance, Department of Revenue on ad-hoc deputation basis with effect from 13.12.2007 (FN) for a period of one year, or till appointment on regular basis is made or until further orders, whichever is earlier.

S. G. P. VERGHESE, Under Secy.

#### INDIAN REVENUE SERVICE (CUSTOMS & CENTRAL EXCISE) ESTABLISHMENT

New Delhi, the 28th December 2007

No. 71 of 2007 (F. No. A-38012/30/2007-Ad.II).—The President is pleased to accept the notice of Voluntary Retirement of Shri P. Dhananjaya, Assistant Commissioner of Customs (P & A), Bangalore with effect from 01.02.2008 (AN).

ALOK AGARWAL, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 10th January 2008

No. A. 12011/17/2006-Admn. II.—In continuation of this Department's Notification of even number dated the 2nd November, 2006, 7th February, 2007 and 6th August, 2007, the President is pleased to extend the appoint of Smt. Jayanthi Srinivasan, Senior Principal Private Secretary of the CSSS Cadre of the Ministry of Finance in the same capacity in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs for a further period of six months upto 30.06.2008 or till a regular Sr. PPS becomes available or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion of above officer shall not confer on her any claim for regular appointment or the right to continue indefinitely in the grade of Senior Principal Private Secretary of CSSS. The service rendered by her on ad-hoc basis will not count for the purpose of seniority in the grade or for eligibility for promotion to the next higher grade and she will be reverted as and when Select List person become available.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

The 14th January 2008

No. A. 19011/1/2008-Admn.II.—The President is pleased to appoint Ms. Anuradha Thakur, IAS (HP : 94), as Deputy Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance with effect from the forenoon of 11th January 2008 for a period of four years or until further orders, whichever event takes place earlier.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

## DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 31st December 2007

No. A-19011/261/2006-Estt.—On attaining the age of superannuation Shri R. L. Banerjee, Director in the Ministry of Finance, Department of Financial Services retires from the Government service, with effect from the afternoon of 31st December, 2007.

S. P. S. SANGWAN, Under Secy.

The 3rd January 2008

No. A-19011/220/2001-Estt.—The President is pleased to appoint Shri D. P. Bhardwaj, Under Secretary of CSS in the Department of Financial Services, Ministry of Finance to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS purely on an ad-hoc basis with effect from the forenoon of 1st January, 2008 and until further orders.

The ad-hoc appointment will be subject to the following terms and conditions :—

- (i) The ad-hoc appointment, shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I.
- (ii) The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

S. P. S. SANGWAN, Under Secy.

The 7th January 2008

No. A-19011/227/2002-Estt.—Consequent upon his appointment as Comptroller and Auditor-General of India, Shri Vinod Rai, IAS (KL : 72) has relinquished the charge of the office of Secretary, Ministry of Finance, Department of Financial Services with effect from the forenoon of 7th January, 2008.

S. P. S. SANGWAN, Under Secy.

New Delhi, the 10th January 2008

No. A-19011/274/2008-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Arun Ramanathan, IAS (TN : 73) as Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, with effect from the forenoon of 9th January, 2008.

ALOK BHATNAGAR, Director.

## DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi-110003, the 31st December 2007

No. A-32013/8/2007/Gr. A/Ind/3744-58.—Further to this office notification No. A-32013/8/2007/Gr. A/Ind/3527-53 dated 29.11.2007, the President is pleased to appoint, on probation, the following Sr. Accounts Officers (Group 'B')

to the Junior Time Scale of ICAS (Group 'A') in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in terms of the Indian Civil Accounts Service (Group 'A') Requirement Rules with effect from the dates of their taking over of the charge of the posts in the JTS :—

Sl. No.	Names
	S/Shri
1.	Satya Narain
2.	Smt. Kanta Arora
3.	N. C. Jain

The period of probation shall be two years from the dates of their taking over of the charge of the posts in the JTS.

SANJEEV MISHRA, Jt. Controller  
General of Accounts.

New Delhi, the 14th January 2008

No. A-11019/2/2007-EG.—The President is pleased to appoint Shri Pushp Raj Mehta of Indian Audit and Accounts Department, as Welfare Officer in the office of the Pr. Accountant General (Civil Audit), Rajasthan, Jaipur in the scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 26.12.2007 (F.N.) and until further orders.

R. PREM ANAND, Under Secy.

New Delhi, the 17th January 2008

No. A-32014/1/2006-Ad. 1.—The President is pleased to extend the appointment of the following Personnel Assistants of CSSS cadre of the Ministry of Finance, Department of Expenditure to the post of Private Secretary in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- purely on ad-hoc basis for the period mentioned against their names or till the select list persons become available, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name	Period of Promotion
1	2	3
1.	Smt. Kusum Jain	01.01.2008 to 30.06.2008
2.	Smt. Manjit Kaur	-do-
3.	Shri. R. R. S. Rawat	-do-
4.	Smt. Madhu Gupta	-do-
5.	Shri. Krishan Punjwani	-do-
6.	Shri. Raj K. Khanna	-do-
7.	Shri. V. K. Jain	-do-
8.	Shri Ramesh Kumar Khattar	-do-
9.	Shri Satish Kumar	-do-
10.	Shri. Anil Kumar Akhria	-do-

1	2	3
11.	Shri R. C. Malhotra	01.01.2008 to 30.06.2008
12.	Shri Ravi Shankar	-do-
13.	Smt. Neelaxi	-do-
14.	Smt. Jyoti Narula	-do-
15.	Shri. G.V.S.S.L. Narasimaam	-do-
16.	Shri. Lallan Manjhi	-do-

2. The ad-hoc appointment of the above named officials shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade "A&B" (merged) of CSSS. The ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

#### MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi, the 10th December 2007

No. PFG (586)/98-Admn. II—On his transfer, Sh. C.S. Govindarajan, a Junior Time Scale (Accounts Branch) Officer of Indian Company Law Service relinquished the charge of the post of Assistant Registrar of Companies, Chennai with effect from the afternoon of 31.10.2007 and has assumed the charge as Bench Officer, Company Law Board (Southern Region Bench), Chennai with effect from the forenoon of 01.11.2007, until further orders.

J. S. GUPTA, Under Secy.

#### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi, the 30th November 2007

No. 1(27)/2003-Expl.—On attaining the age of superannuation, Shri M. Anbunathan, Chief Controller of Explosives in the Petroleum and Explosives Safety Organisation, Nagpur will stand retired from the Government service, with effect from the afternoon of 30th November, 2007.

SANJAY K. THADE, Dir.

#### MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 16th January 2008

No. P-I/460/2008-Estt.—In pursuance of Secretariate of the Appointments Committee of the Cabinet, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training's Communication No. 17/7/2007-EO (SM. I) dated 11th December, 2007, Shri Subramaniam Vijay Kumar, IAS (HP : 76), is appointed as Additional Secretary, Ministry of Mines with effect from the forenoon of 14th January, 2008 until further orders.

PRAMOD CHAND, Under Secy.

#### MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC ENTERPRISES (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY)

New Delhi, the 14th January 2008

No. A-19011/6/2005-Admn.—The President is pleased to appoint Dr. Surajit Mitra, IAS (AM : 77), Joint Secretary, Department of Heavy Industry as Additional Secretary in the upgraded post of Joint Secretary in the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises in the pay scale of Rs. 22,400-525-24,500/- w.e.f. the afternoon of 12th January, 2008 until further orders.

K. K. SHARMA, Under Secy.

#### (DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

New Delhi-110003, the 15th January 2008

No. A-32013/1/2005-Admn.—The President is pleased to extent the ad-hoc appointment of Sh. R. L. Meena as Joint Adviser in the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises for a further period of six months w.e.f. 18.01.2008 or till the post in question is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

JYOTI MATHUR, Under Secy.

#### MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 11th January 2008

No. A-19011/21/2007-Admn.—The President is pleased to appoint Shri B. K. Jain, a Grade-I Officer of Subordinate Statistical Service as Assistant Director in the pay scale of Rs. 8,000—13,500/- in the Ministry of Food Processing Industries.

Shri B. K. Jain has assumed the charge of the post of Assistant Director in the Ministry of Food Processing Industries w.e.f. 31.12.2007 (F/N).

S. K. MOHANTY, Under Secy.

#### MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION (DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 21st January 2008

No. A-32012/1/2002-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 7/16/2007-CS. I dated 01.01.2008, the President is pleased to extend the ad-hoc appointment of the following regular Assistant of CSS Cadre of this Department as Section Officer in the Department of Consumer Affairs in the pay scale of Rs. 6,500-200-15,000/- upto 30.06.2008 or till the post is filled up on regular basis or

till further orders, whichever is earlier, subject to the terms and conditions of ad-hoc promotion intimated from time to time :—

Sl. No.	CSL No.	Name	Date from which officiating as SO
1.	865/89	Shri D. C. Devguni	25.03.2004
2.	871/89	Shri V. K. Sehgal	25.03.2004
3.	872/89	Shri Ombir Singh	06.04.2004
4.	878/89	Shri Amarjit Singh	01.04.2004
5.	942/89	Shri Gopal Singh	25.03.2004
6.	383/91	Smt. Shaifesh Kumari	12.10.2006

PREMA BHATT, Under Secy.

(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC  
DISTRIBUTION)

New Delhi, the 10th January 2008

No. A-32013/1/2008-E. I.—The President is pleased to appoint Shri Sharda Prasad, a regular Section Officer of CSS as Under Secretary (ad-hoc) in the Department of Food & Public Distribution in the pay scale of Rs. 10,000—15,200/- w.e.f. the forenoon of 31st December, 2007.

The aforesaid appointment shall be subject to the order, dated 11.01.2007 of Central Administrative Tribunal Principal Bench, New Delhi, in M.A. No. 2170/2006, OA No. 2793/2005, M.A. No. 27/10/2005.

KULDEEP KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY  
(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 11th January 2008

No. A-31011/1/6-Admn. I (A).—The President is pleased to appoint the following Scientists in a substantive capacity in the post of Scientist 'B' in the Department of Science & Technology with effect from the dates indicated against their names :—

Sl. No.	Name	Date of substantive appointment
1.	Shri Satish Sheshrao Sonwane	31.03.2007
2.	Dr. (Ms.) Susheela Devi Negi	15.04.2007

S. P. KATNAURIA, Under Secy.

The 14th January 2008

No. A-19013/1/2007-Admn. I (A).—The President is pleased to appoint Smt. Madhu Wadhawan Sinha, an Officer of Indian Defence Accounts Service (IDAS : 91) as Director

in the Department of Science & Technology in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- on Central Deputation for a period of five years w.e.f. 14.01.2008 (FN) or until further orders.

S. P. KATNAURIA, Under Secy.

No. A-1/18/2006-Admn-I (A).—The President is pleased to appoint the following Scientist in the Department of Science & Technology in a substantive capacity in the post of Scientist 'C' with effect from the dates shown against their names below :—

- |                                |   |           |
|--------------------------------|---|-----------|
| 1. Sh. Rajiv Kumar             | - | 10.7.2007 |
| 2. Dr. (Ms.) Vandana Chaudhary | - | 15.6.2007 |

(transferred to  
Ministry of Earth  
Sciences)

- |                              |   |           |
|------------------------------|---|-----------|
| 3. Dr. (Mrs.) Anita Aggarwal | - | 28.6.2007 |
|------------------------------|---|-----------|

S. P. KATNAURIA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY)

New Delhi, the 8th January 2008

No. A-12011/1/2005-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. Peyush Goyal, Junior Analyst of this Department as Scientist 'B' against the plan post of Biotechnology Information Centre in this Department in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on deputation basis for a period of one year with effect from the forenoon of 8th January, 2008 or until further orders' whichever is earlier.

PRACHI SAROOP, Dir.

(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL  
RESEARCH)

New Delhi-110016, the 14th January 2008

No. A-12013/01/2007-Estt.—In continuation of this department Notification No. A-12014/01/2003-Admn. dated 7th November, 2005 and that dated 20th March 2006, the President is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar, Deputy Engineer, Haryana State Electronics Development Corporation Limited as Scientist 'C' in Department of Scientific and Industrial Research in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on absorption basis with effect from the forenoon of 14th October, 2007.

2. He will be on probation for a period of one year with effect from the date of absorption.

S. K. KALRA, Under Secy.

## MINISTRY OF EARTH SCIENCES

New Delhi-110003, the 9th January 2008

No. DOD/11/3/2005-Estt.—In pursuance of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training Order No. 4/1/2007-C.S.I (D) dated 1st November, 2007 the President is pleased to appoint Shri M. L. Sharma, Deputy Secretary of Central Secretariat Service (CSS) in the Ministry of Earth Sciences in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- upon his inclusion in the Selection Grade (Deputy Secretary) for the year 2001.

T. K. GUPTA, Under Secy.

New Delhi-110003, the 18th January 2008

No. MoES/11/1/2008-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training O.M. No.15/7/2007-EO(MM-I) dated 28th December, 2007 and consequent upon his appointment as Deputy Secretary on Central Deputation, Shri Taranjit Singh, ICAS-1995 has been taken on the strength of the Ministry of Earth Sciences w.e.f. 14.01.2008 in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- for a period of four years or until further orders whichever event takes place earlier.

KRISHAN KUMAR, Under Secy.

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi, the 6th December 2007

No. 17013/23/2007-IFS.II.—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation 3 of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, a meeting of the Selection Committee for preparation of Select List for promotion from the State Forest Service of Maharashtra to the Indian Forest Service for the year 2005, 2006 & 2007 was held on 17th August, 2007. The Union Public Service Commission has approved the Select List prepared in the said meeting containing the names of the following members of the State Forest Service of Maharashtra towards filling up of promotion vacancies available in Maharashtra cadre of the Indian Forest Service :—

Select List of 2005 :

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
1	2	3
	S/Shri	
1.*	V. B. Thakre	26.05.1960
2.	P. K. Mahajan	08.12.1960
3.	G. K. Kale	12.01.1958
4.	B. J. Bhutda	15.11.1955
5.	A. D. Bhosale	01.06.1958

1	2	3
6.	Dr. D. R. Gujar	07.10.1952
7.	A. R. Moon (SC)	07.06.1954
8.	U. G. Kadlag	02.02.1957
9.	S. G. Chopde	16.07.1957

\*The name at Sl. No. 1 has been included in the list provisionally subject to his clearance in the disciplinary proceedings pending against him and subject to grant of Integrity Certificate by the State Government.

Select List of 2006 :

No Select List was prepared for the 2006 as there was Nil vacancy for promotion to the IFS of Maharashtra Cadre during the year 2006.

Select List of 2007 :

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
0.*#	V. B. Thakre	26.05.1960
1.	G. S. Balki	10.08.1954

\*The name at Sl. No. 0 has been included in the list provisionally subject to his clearance in the disciplinary proceedings pending against him and subject to grant of Integrity Certificate by the State Government.

#The name at Sl. No. 0 has been included in the list in addition to the normal size of the select List under the 2nd provision to Regulation 5(4).

B. C. BEHERA, Under Secy.

The 20th December 2007

No. 17013/30/2007-IFS.II.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rules 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1966 the President is pleased to appoint with effect from 13th December, 2007 the following seven officers of the State Forest Service of Madhya Pradesh to the Indian Forest Service on the basis of Select List for the year 2007 and allocate them to Madhya Pradesh cadre of Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Ashok Kumar Mishra	15.08.1962
2.	Anand Kumar Singh	30.10.1962
3.	Amit Kumar Dubey	13.04.1967
4.	Prabhat Kumar Verma	11.01.1963
5.	Narendra Kumar Senodia	16.08.1964
6.	Yamuna Prasad Singh	20.08.1962
7.	Chouck Singh Ninama	25.08.1962

B. C. BEHERA, Under Secy.

The 24th December 2007

No. 22062/52/1998-IFS-II.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 5 of the India Forest Service (Cadre) Rules, 1966 and in pursuance of the judgement dt. 05.09.2001 of Hon'ble CAT, Ernakulam Bench in O.A. No. 725 of 1998 (Rajesh Ravindran Vs. U.O.I & Others) and judgement dt. 10.08.2006 of Hon'ble High Court, Ernakulam in O.P. No. 22944 of 2002 the Central Government allocates Sh. Rajesh Ravindran, IFS 1995 earlier allocated to Assam-Meghalaya joint cadre vide this Ministry's Notification No. 17015/1/95-IFS-II dt. 29.03.1996, Kerala Cadre.

B. C. BEHERA, Under Secy.

New Delhi-110003, the 17th December 2007

No. 24012/3/2007-IFS-II.—The President is pleased to accept the resignation of Sh. Sushil Kumar, IFS (HR : 1988) and Indian Forest Service officer of 1988 batch borne on Haryana cadre with effect from 1st October, 2004.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110003, the 9th January 2008

No. 19011/01/2008-IFS-I(—The President is pleased to appoint Shri P. R. Mohanty, an Indian Forest Service Officer of 1972 Year of Allotment borne on Orissa Cadre of IFS, to the post of Director General of Forests and Special Secretary to the Government of India in the Ministry of Environment and Forests on deputation under the Central Staffing Scheme of the Ministry of Environment and Forests in the pay scale of Rs. 26000/- (fixed) with effect from the forenoon of 9th January, 2008 and till his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

VIVEK SAXENA, Dir.

New Delhi-110003, the 11th January 2008

No. A-12012/11/2005-P.II (—The President is pleased to appoint Shri Agrim Kaushal, IES (95) as Deputy Secretary in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- in the Ministry of Environment and Forests with effect from the afternoon of

31st December, 2007 for a period of four years or until further orders, whichever event takes place earlier.

PREMA MOHAN, Under Secy.

New Delhi-110003, the 15th January 2008

No. A-24011/1/2007-NRCD-I.—Consequent upon approval of the Competent Authority in the Ministry of Environment & Forests, the services of Shri S. K. Srivastava, Deputy Director on deputation basis have been extended further for a period of one year w.e.f. 08.06.2008 until further orders, whichever is the earliest.

M. L. PARASHAR, Under Secy.

New Delhi-110003, the 17th January 2008

No. A-23011/1/2002-NRCD-I.—The President is pleased to appoint Shri Lalit Kumar Bokolia, Scientist 'C' to the post of Scientist 'D' in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- on promotion under Flexible Complementary Scheme (FCS) in the National River Conservation Directorate, Ministry of Environment & Forests w.e.f. 01.01.2008 until further orders.

SANJIV SWARUP, Director.

#### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110011, the 10th December 2007

No. A-12025/164/2006-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Shadab Taj to Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 10.07.2007 until further orders. Dr. Shadab Taj is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. Dr. Shadab Taj shall be on probation for two years.

(Smt.) MAYA PRAKASH, Under Secy.

The 14th January 2008

No. A. 12025/29/2005-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Richa Agarwal Nee Tandon to the Medical Officer Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 15.10.2007 until further orders. Dr. Richa Agarwal Nee Tandon is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Kanpur. She would be on probation for a period of two years.

(Smt.) MAYA PRAKASH, Under Secy.

#### (DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE)

New Delhi-110011, the 2nd January 2008

No. A-22012/2/2007-Est.III.—Consequent upon his promotion to the Junior Time Scale (JTS) of the Indian



Statistical service and in pursuance to the Ministry of Statistics & Programme Implementation Order No. 12015/2/2006-ISS dated 6th December 2007 Shri K.K. Bansal has assumed charge of the post of Assistant Director in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in the Department of Health & Family Welfare with effect from 26.12.2007 (FN).

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

The 15th January 2008

No. A. 32014/2/2005-Estt. I.—Consequent on inclusion of his name in the Select List of Gr. 'A' & 'B' (merged) of CSSS (PS) for the year 2004 in the cadre of Ministry of Health and Family Welfare (including Dte.G.H.S.) under the Zoning Scheme, vide DOP & T's OM No. 5/18/2006-CS. II dated 16th November, 2007, the President is pleased to appoint Shri Devender Kumar, a Permanent Grade 'C' Stenographer of the CSSS cadre as Private Secretary [Grade 'A' & 'B' (merged)] on regular basis with effect from 18th December 2007 (forenoon).

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

---

**MINISTRY OF AGRICULTURE  
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND  
COOPERATION)**

New Delhi, the 31st December 2007

No. 38011/2/2007-E.II.(Pt.).—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri, J. S. Nigam, Deputy Director (TMOP) in the Department of Agriculture and Cooperation, shall stand retired Government service w.e.f. the afternoon of 31st Dec. 2007.

K. SANJAYAN, Under Secy.

No. 38011/9/2007-E.II.(Pt.).—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri, R. S. Dass, Deputy Commissioner (M&T) in the Department of Agriculture and Cooperation, shall stand retired from Government service w.e.f. the afternoon of 31st Dec. 2007.

K. SANJAYAN, Under Secy.

---

**(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY  
DAIRYING & FISHERIES)**

New Delhi-110 001, the 18th January 2008

No. 12025/8/2007-A.I.—The President is pleased to appoint Dr. Babu Ram, Assistant Commissioner (Animal Husbandry), Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry Dairying & Fisheries) as Deputy Commissioner (Animal Husbandry), in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- on ad hoc basis, with effect from forenoon of 18th January, 2008, for a period of six months or till joining of a regular incumbent whichever is earlier or until further orders.

P.L. MEENA, Under Secy.

**MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT**

New Delhi-110 114, the 17th December, 2007

No. A.12021/5/1998-E.II.—The President is pleased to appoint Shri R. Mohan Kumar as Principal Private Secretary on ad-hoc basis in the CSSS cadre of this Ministry in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 26.11.2007 (FN).

MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

---

**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT  
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)**

New Delhi, the 2nd January 2008

No. A-12011/5/2006-E.I.—The President is pleased to appoint Shri. Vijendra Singh, a regular Statistical Investigator Grade-I of the Subordinate Statistical Service (SSS) Ministry of Statistics and Programme Implementation, National Sample Survey Organisation, New Delhi, to the JTS level of the Indian Statistical Service (ISS) in the grade of Assistant Director (P) in the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the forenoon of 31.12.2007 on regular basis.

K. K. MISHRA, Under Secy.

No. A. 12011/5/2006-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Subash Chander, a regular Statistical Investigator Grade-I (Sr. Statistical Officer) of the Subordinate Statistical Service (SSS), in the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education to the JTS level of the Indian Statistical Service (ISS) in the grade of Assistant Director(P) in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in the same Department with effect from the forenoon of 28.12.2007 on regular basis.

K. K. MISHRA, Under Secy.

---

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND  
EMPOWERMENT**

New Delhi-1, the 14th January 2008

No. 17014/32/97-SCD-IV.—In pursuance of Article 52 (iii) of Memorandum of Association & Articles of Association of National Safai Karmacharis Finance & Development Corporation (NSKFDC), the President is pleased to appoint Shri B. S. Chumber, Deputy General Manager, National Scheduled Castes Finance & Development Corporation, as Official Director on the Board of Directors of NSKFDC, in place of Dr. S.P. Ram with immediate effect and until further orders.

NILAMBUJ SHARAN, Dy. Secy.

No. 17014/32/97-SCD-IV.—In pursuance of Article 52 (ii) of Memorandum of Association & Articles of Association of National Safai Karmacharis Finance & Development

Corporation (NSKFDC), the President is pleased to appoint Shri Pankaj Joshi, Director, Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation as Official Director on the Board of Directors of NSKFDC, in place of Shri Shyam Kapoor, Director, Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation with immediate effect and until further orders.

NILAMBUJ SHARAN, Dy. Secy.

---

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND  
INFORMATION TECHNOLOGY  
(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 11th January 2008

No. 2(8)/2007-Pers.I (Vol.II).—The President is pleased to appoint Shri Mohd. Akram Khan, (E.Code-956) as Scientist 'B' in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity in the Department of Information Technology with effect from the forenoon of 11.01.2007.

2. He will draw pay at the minimum of the above scale of pay.

3. He will be on probation for a period of one year from the date of appointment.

GIRISH SAHAI, Dy. Dir.

---

The 16th January 2008

CORRIGENDUM

In partial modification of Notification No. 2(8)/2007-Pers. I (Vol. II) dated 11.01.2007 regarding appointment of Shri Mohd. Akram Khan, (E.Code-956) as Scientist 'B' in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity in the Department of Information Technology, in the English version, the date of appointment of Shri Mohd Akram Khan to the post and date of issue of the notification may be read :

"11.01.2008" instead of 11.01.2007.

GIRISH SAHAI, Dy. Dir.

---

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 21st January 2008

No. PF/4999/NIC/2007-Adm-I.—The President is pleased to accept the resignation of Shri Prashant Arvind Khadayate, Emp. Code-4999 from the post of Scientist "C", NIC-Maharashtra State Unit, Mumbai with effect from the afternoon of 31st October, 2007 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. Nair, Dy. Dir. (Admn. I)

---

DEPARTMENT OF POSTS

New Delhi-110001, the 31st December 2007

No. 3-5/2005-Admn.—The President is pleased to extend the period of ad-hoc appointment of Shri Ram Roshan, Principal Private Secretary of CSSS as Senior Principal

Private Secretary in the Department of Posts in the scale of Pay of Rs. 12,000-375-16,500/- for the period upto 30.06.2008 or till regular Sr. PPS nominated by DOP&T become available or until further orders, whichever is earlier.

2. This appointment is purely on ad-hoc basis and will not bestow on the Officer any right to continue in the grade indefinitely or for regular appointment or seniority in the grade of Senior Principal Private Secretary of Central Secretariat Stenographers Service.

BHAGWAN DAS, Assistant Director General  
(Admn.)

---

The 2nd January 2008

No. 3-5/2005-Admn.—The President is pleased to extend the period of ad-hoc appointment of the following Private Secretaries of CSSS as Principal Private Secretaries in the Department of Posts in the scale of Pay of Rs. 10,000-325-15,200/- for the period upto 30.06.2008 or till regular Officers nominated by DOP&T become available or until further orders, whichever is earlier.

1. Shri R. K. Mangal

2. Shri Syamal Mukherjee

3. Ms. Pratima Sharma

2. These appointments are purely on ad-hoc basis and will not bestow on the Officer any right to continue in the grade indefinitely or for regular appointment or seniority in the grade of Principal Private Secretaries of Central Secretariat Stenographers Service.

BHAGWAN DAS, Assistant Director General  
(Admn.)

---

The 8th January 2008

No. 1-3/2005-Admn.—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 5/17/2007-CS.I (Desk) dated 06.12.2007, the President is pleased to appoint Shri Suraj Bhan, Section Officer in the Ministry of Social Justice & Empowerment as Assistant Director General [Grade I(US) of CSS] in the Department of Posts in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on ad-hoc basis until further orders, with effects from 31.12.2007 (F/N).

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right to the Officer to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor. The aforesaid appointment shall further be subject to the order dated 11.01.2007 of the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in M.A.No. 2170/2006, O.A.No. 2793/2005, M.A.No. 27/10/2005.

BHAGWAN DAS, Assistant Director General (Admn.)

MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 15th January 2008

No. 2007/E(O) II/25/1 Shri Tushar Kanti Bhattacharya, WBHJS, assumed charge of the Office of the Appellate Authority, Metro Railway, Kolkata w.e.f. 22.06.2007 (F.N.)

MATHEW JOHN, Secretary/Railway Board

No. ERB-I/2007/2/73—Shri Deepak Krishan, HAG/IRSE, Northern Railway, is appointed as Additional Member (CE), Railway Board, in Grade Rs. 24050-26000/- with effect from the forenoon of 07-01-2008.

MATHEW JOHN, Secretary/Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT &  
HIGHWAYS  
(DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi, the 10th January 2008

No. LH-21012/2/2007-SL.—The President is pleased to promote the following officers in the grade of assistant Executive Engineer to the post of Deputy Director in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Directorate General of Lighthouses & Lightships with effect from the dates indicated against each :—

- (1) Shri C. P. Singh, Dy. Director (Electronics) : 27.08.2007 (forenoon).
- (2) Shri A. K. Singh, Dy. Director (Electronics) : 14.09.2007 (forenoon).
- (3) Shri G. K. Gupta, Dy. Director (Civil) : 28.08.2007 (forenoon).

V. P. RANA, Under Secy.

No. LH-21013/1/2007-SL.—The President is pleased to promote Shri Pradip Mukhopadhyay, Technician (Electrical) to the post of Assistant Engineer (Electrical) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500 in the Directorate of Lighthouses & Lightships with effect from the forenoon of 18th June, 2007, until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT &  
HIGHWAYS)

New Delhi, the 1st January, 2008

No. 22012/1/2005-E.II(B).—In continuation of this Deptt.'s Notification of even no. dated 10.08.07, the President is pleased to extend the period of ad-hoc appointment of Shri V.P. Sharma and Shri R. L. Ahuja, PPSs as Sr. Principal Private Secretaries in the Deptt. of Road Transport & Highways for the period upto 31.03.2008 and 30.6.2008 respectively or till regular Sr. PPS become available or until further orders, whichever is earlier.

VIRENDERA MOHAN, Under Secy.

New Delhi-110001, the 31st December, 2007

No. A-19011/12/2007-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Moti Ram Ramchandani, a Senior Time Scale officer of ISS as Joint Director (JAG of ISS) on adhoc basis in the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- w.e.f. 05.11.2007 (FN) and until further orders.

POORNIMA RAJENDRAN, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 14th January 2008

No.01/08 (F.No.2/1/2008-Adm.II) : The President is pleased to appoint Shri Gireesh B Pradhan, IAS (MH : 1977), Joint Secretary, Ministry of Power, as Additional Secretary in the Ministry of Power with effect from the forenoon of the 14th January, 2008 until further orders.

CHANDAN MUKHERJEE, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 31st December, 2007

No. 15011/2/2002-EW-I.—Shri J.B. Fadia, Arbitrator in the Ministry of Urban Development shall retire from the Government Service on attaining the age of superannuation with effect from 31-12-2007 (AN).

J. S. RAWAT, Under Secy.

## MINISTRY OF LABOUR &amp; EMPLOYMENT

The 17th January 2008

New Delhi, the 15th January 2008

No. A-11016-1/2007-CLS-II. – The President is pleased to entrust the additional charge of the post of Presiding Officer of the CGIT-cum-Labour Court, Hyderabad to Shri A.R. Siddiqui, Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court, Bangalore for a period of six months w.e.f. the date of assumption of the charge of the post or till his attaining the age of 65 years or till regular appointment to the post is made or until further orders, whichever is the earliest.

P. K. TAMRAKAR, Under Secy.

No. A-19011/1/2005-CLS-II. – The President is pleased to entrust the additional charge of the post of Presiding Officer of the CGIT-cum-Labour Court-I, Dhanbad to Shri Nagendra Kumar, Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court-II, Dhanbad for a period of six months w.e.f. the date of assumption of the charge of the post or till his attaining the age of 65 years or till regular appointment to the post is made or until further orders, whichever is the earliest.

P. K. TAMRAKAR, Under Secy.